

कयर बोर्ड में वर्चुअल हिंदी कार्यशालाओं का सफल आयोजन

पहली तिमाही वर्चुअल कार्यशाला - 30-06-2020

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 के अनुसार कयर बोर्ड में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान, पहली तिमाही वर्चुअल कार्यशाला दिनांक 30.06.2020 को आयोजित की गई। संविधान की मूल भावना है कि अधिकाधिक सरकारी काम हिंदी में सुनिश्चित करना। तिमाही के दौरान दिनांक 30.06.2020 को उच्च अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। कार्यशाला में कयर बोर्ड के सचिव, निदेशक (वि) प्र., निदेशक (आरडीटीई) प्र. सहित उच्च अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में उल्लिखित सभी विशेष रूप से विचारणीय बिंदुओं पर अधिकारियों को अवगत कराया गया और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए सभी से अनुरोध किया गया। सभी उच्च अधिकारियों को राजभाषा नीति की जानकारी दी गई ताकि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा सकें, कंप्यूटर, ई-मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुते हिंदी में काम को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। कार्यशाला के दौरान सभी

अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल दें । सभी अधिकारियों से कंप्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड एमकोडिंग का प्रयोग करने हेतु अनुरोध किया गया । कार्यशाला के संकाय के रूप में श्री. रामचन्द्रन, सचिव, कोच्ची टोलिक एवं उप निदेशक (रा.भा.), आयकर आयुक्त कार्यालय, कोच्ची को आमंत्रित किया गया । कार्यशाला में कुल 22 अधिकारियों ने भाग लिया । कार्यशाला के उपरांत प्रशिक्षित अधिकारियों से कार्यशाला की उपयोगिता पर फीडबैक भी लिया गया ।